

ऑटोरियो में रोजगार मानक

रोजगार मानक अधिनियम (*Employment Standards Act*), 2000 (ESA) कर्मचारियों की संरक्षा करता है और ऑटोरियो में अधिकांश कार्यस्थलों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।

कर्मचारियों द्वारा अपने ESA अधिकारों का प्रयोग करने पर नियोक्ताओं द्वारा उन्हें दंडित करना निषिद्ध है।

FAIR AT
WORK
ONTARIO

आपके लिए क्या जानना जरूरी है

न्यूनतम वेतन

अधिकांश कर्मचारी कम-से-कम न्यूनतम वेतन का भुगतान किए जाने के पात्र हैं। वर्तमान दरों के लिए देखें:

Ontario.ca/minimumwage.

कार्य-समय और ओवरटाइम

कार्य-समय के संबंध में दैनिक एवं साप्ताहिक सीमाएं हैं और भोजन करने के लिए समय, विराम अवधि तथा ओवरटाइम के लिए नियम बने हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखें: Ontario.ca/hoursofwork and Ontario.ca/overtime

सार्वजनिक अवकाश

ऑटोरियो में प्रतिवर्ष कई सार्वजनिक अवकाश आते हैं। अधिकांश कर्मचारी इन दिनों काम से छुट्टी करने और सार्वजनिक अवकाश वेतन पाने के हकदार होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखें:

Ontario.ca/publicolidays

अपने अधिकारों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें:

Ontario.ca/employmentstandards

1-800-531-5551 or TTY 1-866-567-8893

[@ONlabour](https://twitter.com/ONlabour) [@OntarioMinistryofLabour](https://facebook.com/OntarioMinistryofLabour)

छुट्टी का समय और वेतन

अधिकांश कर्मचारी प्रत्येक 12 माह काम करने के बाद अवकाश समय अर्जित करते हैं। कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश वेतन की राशि के लिए नियम हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखें: visit:

Ontario.ca/vacation

अनुपस्थिति अवकाश

ऑटोरियो में नौकरी-संरक्षा युक्त कई अनुपस्थिति अवकाश हैं। ऐसे अवकाश के उदाहरणों में गर्भावस्था, माता-पिता और परिवार की देखभाल करने के लिए अवकाश शामिल हैं। और अधिक जानकारी के लिए देखें: Ontario.ca/ESAGuide.

बर्खास्तगी सूचना और वेतन

अधिकांश मामलों में, रोजगार समाप्त करते समय और/या नोटिस के बजाए बर्खास्तगी वेतन देते समय नियोक्ताओं द्वारा अग्रिम में लिखित सूचना दी जानी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए देखें: Ontario.ca/terminationofemployment

रोजगार संबंधी अन्य अधिकार, छूट और विशेष नियम

इस पोस्टर में सूचीबद्ध न किए गए अन्य अधिकार, छूट और विशेष अधिकार भी हैं जिनमें पृथक्करण वेतन के अधिकार, अस्थायी सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों को काम सौंपने के विशेष नियम शामिल हैं।



आप और आपके कार्यस्थल को प्रभावित कर सकने वाले नवीनतम समाचारों के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए सबस्क्राइब करें:

Ontario.ca/labournews